

DEVI AHILYA VISHWAVIDYALAYA (DAVV), INDORE
B.A. FIRST YEAR QUESTION PAPER – 2018
SUB : भूगोल प्रथम प्रश्नपत्र : भौतिक भूगोल (स्थल मण्डल)
GEOGRAPHY PAPER- I : PHYSICAL GEOGRAPHY (LITHOSPHERE)

Section (A) : Objective Regular/Private 5 x 1=5

1. सौर मण्डल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
Which is the largest planet of the Solar System?
2. सम्पूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है?
What is the density of whole world?
3. भूकम्पमापी यंत्र को....कहा जाता है। (रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए)
Earthquake measuring instrument is called.... (Fill in the blank)
4. अपरदन चक्र की संकल्पना के प्रतिपादक थे : (सही विकल्प चुनिये)
(अ) हट्टन (ब) पेंक (स) डार्विन (द) डेविस।
The propounder of concept of Cycle of Erosion is : (Choose correct option)
(a) Hutton (b) Penk (c) Darwin (d) Davis.
5. 'बरखान' भूरूप बनता है : (सही विकल्प चुनिये)।
(अ) हिमानी (ब) नदी (स) वायु (द) भूमिगत जल।
"Barkhans" are made by : (Choose the proper option)
(a) Glacier (b) River : (c) Wind (d) Underground Water.

Section (B) : Short Answer Regular/ Private 5 x 3=15

1. भूगोल की प्रकृति को समझाइए।
Explain the nature of Geography. <http://www.davvonline.com>
(OR) पृथ्वी पर होने वाले दिन-रात के कारण को समझाइए।
Explain the causes of day and night on the Earth.
2. पृथ्वी की विभिन्न परतों की दो-दो विशेषताएँ बताइए।
Give the characteristics of the layers of Earth's Interior. (two for each)
(OR) अंश घाटी क्या है? समझाइए।
What is Fault Valley? Explain.
3. आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के दो-दो उदाहरण दीजिए।
Give two examples of each of Igneous and Metamorphic Roc
(OR) अपक्षय और अपरदन में अन्तर समझाइए।
Explain the difference between Denudation and Erosion.
4. वृहद क्षरण से क्या तात्पर्य है?
What is meant by Mass Wasting?

(OR) गुम्बदाकार पर्वत की विशेषताएँ बताइए।
Give the characteristics of Dome Mountain.

5. नदी विसर्प बनने की प्रक्रिया समझाइए।
Explain the process of Meandering.

(OR) मरुस्थलों के प्रकार बताइए।
Describe the types of Deserts.

Section (C) : Long Answer Regular 5 x 4=20/ Private 5 x 6=30

1. पृथ्वी की आयु निर्धारण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए।
Describe the various methods of determining the age of the Earth.

(OR) पृथ्वी की उत्पत्ति से सम्बन्धित लाप्लास की निहारिका परिकल्पना का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए।

Describe with criticism the Nebular Hypothesis of Laplace, regarding the origin of the Earth.

2. प्लेट विवर्तनिकी क्या है? समझाइए।

What is Plate Tectonics? Explain. <http://www.davvonline.com>

(OR) निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिये :

(अ) वलन के प्रकार (ब) दरार घाटी एवं उत्थित पर्वत। (स) पृथ्वी की आंतरिक पते।

Write short notes on any two of the following:

(a) Types of Folds (b) Fault Valley and Block Mountain (c) Layers of the Interior of the Earth.

3. भसंतुलन के सिद्धांत को प्राट के मत के आधार पर समझाइए।

Explain the Theory of Isostasy according to view of Pratt.

(OR) 'भूकम्प क्या है? भूकम्पीय तरंगों को विस्तार से समझाइए।

What is Earthquake? Explain the seismic waves in detail.

4. पर्वतों की उत्पत्ति से सम्बन्धित होम्स के संवहन तरंग सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।

Explain the Conventional Current Theory of Mountain Building, according to Holmes.

(OR) डेविस के अपरदन चक्र का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Examine critically the Cycle of Erosion of Davis. <http://www.davvonline.com>

5. हिमा"अपरदन से निर्मित भूदेश्यों का वर्णन कीजिए।

Describe the landforms originated by the erosion of Glaciers.

(OR) निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए :

(अ) बालुका स्तूप (ब) कार्ट कन्दरा (स) तट रेखाओं के प्रकार।

Write short notes on any two of the following:

(a) Sand Dunes (b) Karst Caverns (c) Types of Coast Lines.